



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2010/पौष 6, 1932

No. 338]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2010/PAUSHA 6, 1932

दि इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2010

दिसम्बर 2010 की आईसीएसआई सं. 2

सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 4, दिनांक 6 सितम्बर 2010 के अन्तर्गत गठित पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद के चुनाव कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 तथा कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) 2006 के अनुरूप निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार 10 दिसम्बर 2010 को आयोजित किए गए:-

- (1) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 1, 3 से 5 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010
- (2) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 7 से 9 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010

निम्नलिखित उम्मीदवारों को 21 व 22 दिसम्बर 2010 को वोटों की गिनती के बाद पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद के लिए (निर्वाचन क्रमानुसार) निर्वाचित घोषित किया गया है:-

1. श्री अंजन कुमार राय (एफसीएस-5684)
2. श्री मुकेश चतुर्वेदी (एसीएस-10213)
3. सुश्री सुनीता मोहंती (एफसीएस-5056)
4. श्री दीपक कुमार खेतान (एफसीएस-5615)
5. श्री अरुण कुमार खण्डेलिया (एफसीएस-3829)
6. श्री रणजीत कुमार कनौडिया (एफसीएस-5899)

कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 के नियम 36 के अनुसरण में जारी।

एन. के. जैन, मतदान अधिकारी और सचिव एवं सीईओ

[विज्ञापन III/4/असाधारण/121/10]

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2010

ICSI No. 2 of December, 2010

The election to the Eastern India Regional Council constituted vide Notification ICSI (Election) No.4 of September 2010 dated 6th September, 2010 was held in accordance with the Company Secretaries Regulations, 1982 and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 on 10th December, 2010 in accordance with the following Notifications :-

- (i) Notifications ICSI (Election) No.1, 3 to 5 of September, 2010 dated 6th September, 2010.
- (ii) Notifications ICSI (Election) No.7 to 9 of September, 2010 dated 6th September, 2010.

The following candidates have been declared elected to the Eastern India Regional Council (in the order elected) after the counting of votes held on 21st and 22nd December, 2010 :-

1. Shri Anjan Kumar Roy (FCS-5684)
2. Shri Mukesh Chaturvedi (ACS-10213)
3. Ms. Sunita Mohanty (FCS-5056)
4. Shri Deepak Kumar Khaitan (FCS-5615)
5. Shri Arun Kumar Khandelia (FCS-3829)
6. Shri Ranjeet Kumar Kanodia (FCS-5899)

Issued in accordance with Rule 36 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.

N. K. JAIN, Returning Officer and Secy. & CEO

[ADVT III/4/Ext/121/10]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2010

दिसम्बर 2010 की आईसीएसआई सं. 3

सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 4, दिनांक 6 सितम्बर 2010 के अन्तर्गत गठित दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद के चुनाव कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 तथा कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) 2006 के अनुरूप निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार 10 दिसम्बर 2010 को आयोजित किए गए:-

- (1) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 1, 3 से 5 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010
- (2) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 7 से 9 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010

निम्नलिखित उम्मीदवारों को 22 दिसम्बर 2010 को वोटों की गिनती के बाद दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद के लिए (निर्वाचन क्रमानुसार) निर्वाचित घोषित किया गया है:-

1. श्री ए. विश्वेश्वरा राव (एसीएस-12067)
2. श्री सोमा शेखर मार्थी (एफसीएस-1989)
3. श्री बैजू रामाचन्द्रन (एसीएस-16505)
4. श्री बी रवि (एफसीएस-1810)
5. श्री के. रामासामी (एसीएस-15875)
6. श्री सी. द्वारकानाथ (एसीएस-8417)
7. श्री . रामासुब्रह्मणियम सी. (एफसीएस-6125)
8. श्री नगेन्द्र डी. राव (एफसीएस-5553)

कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 के नियम 36 के अनुसरण में जारी।

एन. के. जैन, मतदान अधिकारी और सचिव एवं सीईओ

[विज्ञापन III/4/असाधारण/121/10]

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2010

ICSI No. 3 of December, 2010

The election to the Southern India Regional Council constituted vide Notification ICSI (Election) No.4 of September, 2010 dated 6th September, 2010 was held in accordance with the Company Secretaries Regulations, 1982 and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 on 10th December, 2010 in accordance with the following Notifications :-

- (i) Notifications ICSI (Election) No.1, 3 to 5 of September, 2010 dated 6th September, 2010.
- (ii) Notifications ICSI (Election) No.7 to 9 of September, 2010 dated 6th September, 2010.

The following candidates have been declared elected to the Southern India Regional Council (in the order elected) after the counting of votes held on 22nd December, 2010 :-

1. Shri A. Visweswara Rao (ACS-12067)
2. Shri Soma Sekhar Marthi (FCS-1989)
3. Shri Baiju Ramachandran (ACS 16505)
4. Shri B. Ravi (FCS-1810)
5. Shri K. Ramasamy (ACS-15875)
6. Shri C. Dwarakanath (ACS-8417)
7. Shri Ramasubramaniam C. (FCS-6125)
8. Shri Nagendra D. Rao (FCS-5553)

Issued in accordance with Rule 36 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.

N. K. JAIN, Returning Officer and Secy. & CEO

[ADVT III/4/Exty/121/10]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2010

दिसम्बर 2010 की आईसीएसआई सं. 4

सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 4, दिनांक 6 सितम्बर 2010 के अन्तर्गत गठित पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के चुनाव कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 तथा कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) 2006 के अनुरूप निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार 10 और 11 दिसम्बर 2010 को मुम्बई तथा अन्य स्थानों के लिए 10 दिसम्बर 2010 को आयोजित किए गए:-

- (1) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 1, 3 से 5 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010
- (2) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 7 से 9 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010

निम्नलिखित उम्मीदवारों को 23 दिसम्बर 2010 को वोटों की गिनती के बाद पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के लिए (निर्वाचन क्रमानुसार) निर्वाचित घोषित किया गया है:-

1. श्री महावीर लुनावत (एफसीएस-5751)
2. श्री मकरंद एम. लेले (एफसीएस-3453)
3. श्री चन्द्रशेखर एस. केलकर (एफसीएस-2784)
4. श्री आशीष सी. दोषी (एफसीएस-3544)
5. श्री आशीष सी. भट्ट (एफसीएस-4650)
6. सुश्री रागिनी के. चोक्शी (एफसीएस-2390)
7. श्री हितेश डी. बुच (एफसीएस-3145)
8. श्री आशीष गर्ग (एफसीएस-5181)
9. श्री संजय कुमार गुप्ता (एसीएस-8468)
10. श्री प्रकाश के पाण्ड्या (एफसीएस-3901)
11. श्री अमित कुमार जैन (एसीएस-19844)
12. श्री हितेश कोठारी (एफसीएस-6038)

कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 के नियम 36 के अनुसरण में जारी।

एन. के. जैन, मतदान अधिकारी और सचिव एवं सीईओ

[विज्ञापन III/4/असाधारण/121/10]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2010

ICSI No. 4 of December, 2010

The election to the Western India Regional Council constituted vide Notification ICSI (Election) No.4 of September, 2010 dated 6th September, 2010 was held in accordance with the Company Secretaries Regulations, 1982 and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 on 10th & 11th December, 2010 in Mumbai and on 10th December, 2010 at other places in accordance with the following Notifications :-

- (i) Notifications ICSI (Election) No.1, 3 to 5 of September, 2010 dated 6th September, 2010.

- (ii) Notifications ICSI (Election) No.7 to 9 of September, 2010 dated 6th September, 2010.

The following candidates have been declared elected to the Western India Regional Council (in the order elected) after the counting of votes held on 23rd December, 2010 :-

1. Shri Mahavir Lunawat (FCS-5751)
2. Shri Makarand M. Lele (FCS-3453)
3. Shri Chandrashekhar S. Kelkar (FCS-2784)
4. Shri Ashish C. Doshi (FCS-3544)
5. Shri Ashish C. Bhatt (FCS-4650)
6. Ms. Ragini K. Chokshi (FCS-2390)
7. Shri Hitesh D. Buch (FCS-3145)
8. Shri Ashish Garg (FCS-5181)
9. Shri Sanjay Kumar Gupta (ACS-8468)
10. Shri Prakash K Pandya (FCS-3901)
11. Shri Amit Kumar Jain (ACS-19844)
12. Shri Hitesh Kothari (FCS-6038)

Issued in accordance with Rule 36 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.

N. K. JAIN, Returning Officer and Secy. & CEO

[ADVT III/4/Ext/121/10]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2010

दिसम्बर 2010 की आईसीएसआई सं. 5

सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 4, दिनांक 6 सितम्बर 2010 के अन्तर्गत गठित उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद के चुनाव कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 तथा कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) 2006 के अनुरूप निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार 10 और 11 दिसम्बर 2010 दिल्ली/नई दिल्ली को और अन्य स्थानों के लिए 10 दिसम्बर 2010 को आयोजित किए गए:-

- (1) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 1, 3 से 5 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010
- (2) सितम्बर 2010 की अधिसूचना आईसीएसआई (चुनाव) सं. 7 से 9 तक दिनांक 6 सितम्बर 2010

निम्नलिखित उम्मीदवारों को 24 दिसम्बर 2010 को वोटों की गिनती के बाद उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद के लिए (निर्वाचन क्रमानुसार) निर्वाचित घोषित किया गया है:-

1. श्री रणजीत कुमार पाण्डे (एफसीएस-5922)
2. श्री विनीत के. चौधरी (एफसीएस-5327)
3. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल (एसीएस-19344)
4. श्री नीरज प्रीत सिंह चावला (एसीएस-20415)
5. श्री अवतार सिंह (एफसीएस-5905)
6. श्री दीपक कुकरेजा (एफसीएस-4140)

4899 62/10-2

7. सुश्री आशु गुप्ता (एफसीएस-4123)
8. श्री धनंजय शुक्ला (एफसीएस-5886)
9. श्री राजीव बजाज (एफसीएस-3662)
10. श्री मनीष गुप्ता (एफसीएस-5123)
11. श्री पुनीत कुमार अबरोल (एफसीएस-1774)
12. श्री मदन गोपाल जिंदल (एफसीएस-2725)

कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 के नियम 36 के अनुसरण में जारी।

एन. के. जैन, मतदान अधिकारी और सचिव एवं सीईओ

[विज्ञापन III/4/असाधारण/121/10]

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2010

ICSI No. 5 of December, 2010

The election to the Northern India Regional Council constituted vide Notification ICSI (Election) No.4 of September, 2010 dated 6th September, 2010 was held in accordance with the Company Secretaries Regulations, 1982 and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 on 10th & 11th December, 2010 in Delhi / New Delhi and on 10th December, 2010 at other places in accordance with the following Notifications:-

- (i) Notifications ICSI (Election) No.1, 3 to 5 of September, 2010 dated 6th September, 2010.
- (ii) Notifications ICSI (Election) No.7 to 9 of September, 2010 dated 6th September, 2010.

The following candidates have been declared elected to the Northern India Regional Council (in the order elected) after the counting of votes held on 24th December, 2010:-

1. Shri Ranjeet Kumar Pandey (FCS-5922)
2. Shri Vincet K. Chaudhary (FCS-5327)
3. Shri Shyam Sunder Agrawal (ACS-19344)
4. Shri Niraj Preet Singh Chawla (ACS-20415)
5. Shri Avtar Singh (FCS-5905)
6. Shri Deepak Kukreja (FCS-4140)
7. Ms Ashu Gupta (FCS-4123)
8. Shri Dhananjay Shukla (FCS-5886)
9. Shri Rajiv Bajaj (FCS-3662)
10. Shri Manish Gupta (FCS -5123)
11. Shri Punit Kumar Abrol (FCS-1774)
12. Shri Madan Gopal Jindal (FCS-2725)

Issued in accordance with Rule 36 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.

N. K. JAIN, Returning Officer and Secy. & CEO

[ADVT III/4/Ext/121/10]